



COVID-19 की प्रतिक्रिया में, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट सेवा में 31 मार्च को लागू होने वाले बदलाव

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (30 मार्च, 2020) – COVID-19 (सी.ओ.वी.आई.डी-19) की प्रतिक्रिया में और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ब्रैम्पटन ट्रांज़िट (Brampton Transit), अपने समुदाय को सुरक्षित रूप से सेवा प्रदान कर रहा है, 31 मार्च से शुरू करते हुए, बस सेवा में निम्न प्रकार से बदलाव किए जाएंगे।

निम्नलिखित रूट्स पर, कल से शुरू करते हुए और अगले नोटिस तक, सुबह (सुबह 6 बजे से 9 बजे तक) और शाम (दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक) की पीक पीरियड (Peak Period) सेवा पेश नहीं की जाएगी। लगभग सुबह 9 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक दोपहर की सेवा और शाम 7 बजे से बाद शाम की सेवा, इन रूट्स पर पहले की तरह ही जारी रहेगी।

- 12 ग्रेनोबल (12 Grenoble)
- 13 एवोनडेल (13 Avondale)
- 16 साउथगेट (16 Southgate)
- 17 होडन (17 Howden)
- 19 फर्नफोरेस्ट (19 Fernforest)
- 32 फादर टोबिन (32 Father Tobin)
- 33 पीटर रॉबर्टसन (33 Peter Robertson)
- 56 किंगनोल (56 Kingknoll)

ये बदलाव, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट के कुछ व्यस्त रूट्स के लिए अतिरिक्त स्रोतों को दुबारा बांटने के लिए लागू होंगे क्योंकि हम शारीरिक दूरी जैसे उपायों का समर्थन करने के लिए बसों में आधी सीटों पर ही सवारियां ले रहे हैं।

अधिक बार सफाई और रोगाणु मुक्त करने की समय सारणी पहले की तरह ही प्रभावी रहेगी। हर 48 घंटों में सभी ठोस सतहों, ऑपरेटर कम्पार्टमेंट्स और सीटों को रोगाणु मुक्त करना, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट का लक्ष्य है। जिन फैसिलिटीज और टर्मिनल्स की ठोस सतहें हैं, उन्हें रोज़ाना पोंछा जाएगा और रोगाणु मुक्त किया जाएगा। सवारियों को सलाह दी जाती है कि वे सफर करते समय हैंड सैनिटाइज़र, वाइप्स जैसे खुद के रोगाणु नाशक पदार्थ साथ में रखें और बार-बार अपने हाथ धोएं।

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, जोखिमों का लगातार निरीक्षण करने के लिए पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health) और ब्रैम्पटन एमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफिस (Brampton Emergency Management Office) में अपने साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। नियमित अपडेट्स के लिए www.brampton.ca/covid19 पर जाएं और सेवा अपडेट्स के लिए bramptontransit.com पर जाएं अथवा Twitter पर @bramptontransit को फॉलो करें। सवाल सीधे ब्रैम्पटन ट्रांज़िट के संपर्क केंद्र (Contact Centre) से 905-874-2999 पर पूछे जा सकते हैं।

-30-

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोआर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca